



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2478]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 2012/पौष 1, 1934

No. 2478]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 2012/PAUSA 1, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2012

का.आ. 2986(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि गुजरात राज्य के कच्छ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8ए के 306.000 कि.मी. से 362.400 कि.मी. तक के भू-खण्ड (समाखियाली-गांधीधाम सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप मण्डल मजिस्ट्रेट, अंजार को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 ए के कि.मी. 306.000 कि.मी. से 362.400 कि.मी. तक (सामखियाली - गाँधीधाम सेक्शन) के लिए अर्जित की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन.

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कच्छ (गुज)	(1) भचाड	(1) सामखियाली	325	निजी	खेती	0.0022
				324	निजी	खेती	0.0006
				ट्र. सर्वे न. रेलवे	सरकारी	बंजर	0.5217
				308/2	निजी	बिन खेती	0.2226
				327	निजी	खेती	0.0342
				330	निजी	खेती	0.0210
				323/2	निजी	खेती	0.0532
				326	निजी	खेती	0.0229
				263/2	निजी	बिन खेती	0.0615
				284/1	निजी	खेती	0.0059
				284/2	निजी	खेती	0.0190
				268/1/B 1	निजी	बिन खेती	0.0053
				268/1/A 1	निजी	बिन खेती	0.0330
				269/2	निजी	बिन खेती	0.0431
				275/2	निजी	बिन खेती	0.0273
				276	निजी	बिन खेती	0.0232
				277	निजी	बिन खेती	0.0415
				283	निजी	खेती	0.1103
				274/2	निजी	बिन खेती	0.0414
				84	निजी	खेती	0.0392
				274/1	निजी	बिन खेती	0.0110
			(2) छडवाडा	824	निजी	खेती	0.0587
				797	निजी	खेती	0.2417
				560	निजी	खेती	0.0282
				561	निजी	खेती	0.0377
				562	निजी	खेती	0.0439
				570	निजी	खेती	0.0945
				501/2	निजी	खेती	0.0568
				503	निजी	खेती	0.0338
				490	निजी	खेती	0.0621
				491	निजी	खेती	0.0470
			(3) गोंध	395	निजी	खेती	0.0516
				802/1	निजी	बिन खेती	0.0258
				791/5	निजी	खेती	0.0291
				791/6	निजी	खेती	0.0006

1	2	3	4	5	6	7	8
				782/1	निजी	खेती	0.0342
				782/2	निजी	खेती	0.0285
				782/3	निजी	खेती	0.0343
				782/4	निजी	खेती	0.0304
				736/1	निजी	बिन खेती	0.0747
				736/5	निजी	बिन खेती	0.0478
				735/4	निजी	बिन खेती	0.1257
				732/2	निजी	बिन खेती	0.0993
				732/4	निजी	बिन खेती	0.0142
				733	निजी	बिन खेती	0.1136
				715/1	निजी	बिन खेती	0.1477
				715/5	निजी	बिन खेती	0.0177
				715/5	निजी	बिन खेती	0.0035
				715/5	निजी	बिन खेती	0.0276
				715/2	निजी	बिन खेती	0.0276
				717/1	निजी	खेती	0.0416
				717/2	निजी	खेती	0.1625
				720/1	निजी	खेती	0.0364
				720/2	निजी	खेती	0.0623
				712	निजी	खेती	0.1023
				713	सरकारी	बंजर	0.1557
				714	निजी	खेती	0.0218
				1422/5	निजी	बिन खेती	0.0211
				1420/1	निजी	खेती	0.0618
				1420/3	निजी	खेती	0.0020
				1423/4	निजी	खेती	0.0007
				1422/1	निजी	बिन खेती	0.0311
				1419/3	निजी	बिन खेती	0.0118
				1419/2	निजी	खेती	0.0138
				1417	सरकारी	बंजर	0.1649
				1413	निजी	बिन खेती	0.0309
				1413	निजी	बिन खेती	0.0107
				1413	निजी	बिन खेती	0.0001
				1413	निजी	बिन खेती	0.0067
				1413	निजी	बिन खेती	0.0001
				1413	निजी	बिन खेती	0.0061
				1413	निजी	बिन खेती	0.0050
				1413	निजी	बिन खेती	0.0004
				1413	निजी	बिन खेती	0.0007
				1413	निजी	बिन खेती	0.0047
				1413	निजी	बिन खेती	0.0044
				1413	निजी	बिन खेती	0.0010
				1413	निजी	बिन खेती	0.0013

1	2	3	4	5	6	7	8
				1413	निजी	बिन खेती	0.0043
				1413	निजी	बिन खेती	0.0040
				1413	निजी	बिन खेती	0.0016
				1413	निजी	बिन खेती	0.0019
				1413	निजी	बिन खेती	0.0038
				1413	निजी	बिन खेती	0.0067
				1413	निजी	बिन खेती	0.0047
				1413	निजी	बिन खेती	0.0060
				1413	निजी	बिन खेती	0.0055
				1413	निजी	बिन खेती	0.0045
				1413	निजी	बिन खेती	0.0069
				1413	निजी	बिन खेती	0.0081
				1413	निजी	बिन खेती	0.0033
				1413	निजी	बिन खेती	0.0020
				1413	निजी	बिन खेती	0.0090
				1413	निजी	बिन खेती	0.0145
			(4) भचाऊ	1093	निजी	खेती	0.0940
				1095/1	निजी	खेती	0.0770
				1095/2	निजी	खेती	0.0012
				1096	निजी	खेती	0.0937
				1938/1	निजी	बिन खेती	0.0475
				1938/2	निजी	बिन खेती	0.0826
				1938/3	निजी	बिन खेती	0.0110
				1938/4	निजी	बिन खेती	0.0949
				1192/1	निजी	खेती	0.0771
				1192/2	निजी	खेती	0.0266
				1190/2	निजी	खेती	0.0658
				1225	निजी	खेती	0.1126
				1190/3	निजी	खेती	0.0230
				1188/2	निजी	खेती	0.0688
				1183/2	निजी	बिन खेती	0.0827
				1411/2	निजी	खेती	0.0285
				1430/1	निजी	खेती	0.0184
				2000 P	निजी	बिन खेती	0.0648
				2000 P	निजी	बिन खेती	0.1942
				2000 P	निजी	बिन खेती	0.0419
				1922/1	निजी	बिन खेती	0.0186
				1919/1	निजी	खेती	0.1329
				2000/45	निजी	बिन खेती	0.1423
				1919/1/1	निजी	खेती	0.0519
				1904/2	निजी	खेती	0.0064
				1	निजी	खेती	0.2635
				2000/5	निजी	बिन खेती	0.0521

1	2	3	4	5	6	7	8
				2000/5	निजी	बिन खेती	0.0300
				2000/5	निजी	बिन खेती	0.0160
				2000/5	निजी	बिन खेती	0.0006
				2000/5	निजी	बिन खेती	0.0294
				2000/5	निजी	बिन खेती	0.0236
				144/1	निजी	खेती	0.1137
				1853/2 A	निजी	खेती	0.0335
				1853/2 B	निजी	खेती	0.0430
				14	निजी	खेती	0.2117
				2/1	निजी	खेती	0.0138
				2/2	निजी	खेती	0.0072
				1852/1	निजी	खेती	0.5133
			(5) चोपड़ा	281	निजी	बिन खेती	0.0861
				368/1	निजी	बिन खेती	0.0796
			(6) मोटी चिराई	230	निजी	Agr.	0.0956
				1003	निजी	खेती	0.1696
				433	निजी	खेती	0.0032
				553	निजी	खेती	0.0235
			(7) नानी चिराई	323/2	निजी	खेती	0.0052
	(2) अंजार		(1) वरसाना	46/1	निजी	बिन खेती	0.0554
				34/1	निजी	बिन खेती	0.2058
				235	निजी	खेती	0.0053
	(3) गाँधीधाम		(1) पडाना	79/2	निजी	बिन खेती	0.0300
			(2) चुड़वा	205/2	निजी	खेती	0.0419
			(3) मीठी रोहर	51/1	निजी	खेती	0.0369
				51/2	निजी	बिन खेती	0.0223
				24/3	निजी	बिन खेती	0.0476
				24/4	निजी	खेती	0.0372
				566/2	निजी	खेती	0.0387
				288/2	निजी	बिन खेती	0.1062
				292	निजी	बिन खेती	0.1394
				573 Tra.	सरकारी	सरकारी	0.3083
				288/1	निजी	बिन खेती	0.0865
				573	निजी	बिन खेती	0.4107
				243/2	निजी	खेती	0.0846
				243/3	निजी	बिन खेती	0.1282

[फा. सं. भाराराप्रा/एमसी.-II/फेज-V/समा-गाँधी/एलए/2009/3ए]

माया प्रकाश, उप-सचिव

474461/12-2

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd December, 2012

S.O. 2986(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 8A, in the stretch of land from Km. 306.000 to Km. 362.400 (Samakhiyaly-Gandhidham Section) in the district of Kachchh in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional Magistrate, Anjar, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 306.000 to Km. 362.400 (Samakhiali-Gandhidham Section) of the National Highway Number-8A in the State of Gujarat.

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in hectares / Square metres
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kachchh (Bhuj)	(1) Bhachau	(1) Samakhiali	325	Pvt.	Agri.	0.0022
				324	Pvt.	Agri.	0.0006
				Tra. Survey no. Railway	Govt.	Barren	0.5217
				308/2	Pvt.	Non Agri.	0.2226
				327	Pvt.	Agri.	0.0342
				330	Pvt.	Agri.	0.0210
				323/2	Pvt.	Agri.	0.0532
				326	Pvt.	Agri.	0.0229
				263/2	Pvt.	Non Agri.	0.0615
				284/1	Pvt.	Agri.	0.0059
				284/2	Pvt.	Agri.	0.0190
				268/1/B 1	Pvt.	Non Agri.	0.0053
				268/1/A 1	Pvt.	Non Agri.	0.0330
				269/2	Pvt.	Non Agri.	0.0431
				275/2	Pvt.	Non Agri.	0.0273
				276	Pvt.	Non Agri.	0.0232
				277	Pvt.	Non Agri.	0.0415
				283	Pvt.	Agri.	0.1103
				274/2	Pvt.	Non Agri.	0.0414
				84	Pvt.	Agri.	0.0392
				274/1	Pvt.	Non Agri.	0.0110
			(2) Chadwada	824	Pvt.	Agri.	0.0587
				797	Pvt.	Agri.	0.2417
				560	Pvt.	Agri.	0.0282
				561	Pvt.	Agri.	0.0377
				562	Pvt.	Agri.	0.0439
				570	Pvt.	Agri.	0.0945
				501/2	Pvt.	Agri.	0.0568
				503	Pvt.	Agri.	0.0338
				490	Pvt.	Agri.	0.0621
				491	Pvt.	Agri.	0.0470
			(3) Vondh	395	Pvt.	Agri.	0.0516
				802/1	Pvt.	Non Agri.	0.0258

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in hactares / Square metres
1	2	3	4	5	6	7	8
				791/5	Pvt.	Agri.	0.0291
				791/6	Pvt.	Agri.	0.0006
				782/1	Pvt.	Agri.	0.0342
				782/2	Pvt.	Agri.	0.0285
				782/3	Pvt.	Agri.	0.0343
				782/4	Pvt.	Agri.	0.0304
				736/1	Pvt.	Non Agri.	0.0747
				736/5	Pvt.	Non Agri.	0.0478
				735/4	Pvt.	Non Agri.	0.1257
				732/2	Pvt.	Non Agri.	0.0993
				732/4	Pvt.	Non Agri.	0.0142
				733	Pvt.	Non Agri.	0.1136
				715/1	Pvt.	Non Agri.	0.1477
				715/5	Pvt.	Non Agri.	0.0177
				715/5	Pvt.	Non Agri.	0.0035
				715/5	Pvt.	Non Agri.	0.0276
				715/2	Pvt.	Non Agri.	0.0276
				717/1	Pvt.	Agri.	0.0416
				717/2	Pvt.	Agri.	0.1625
				720/1	Pvt.	Agri.	0.0364
				720/2	Pvt.	Agri.	0.0623
				712	Pvt.	Agri.	0.1023
				713	Govt.	Barren	0.1557
				714	Pvt.	Agri.	0.0218
				1422/5	Pvt.	Non Agri.	0.0211
				1420/1	Pvt.	Agri.	0.0618
				1420/3	Pvt.	Agri.	0.0020
				1423/4	Pvt.	Agri.	0.0007
				1422/1	Pvt.	Non Agri.	0.0311
				1419/3	Pvt.	Non Agri.	0.0118
				1419/2	Pvt.	Agri.	0.0138
				1417	Govt.	Barren	0.1649
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0309
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0107
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0001
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0067
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0001
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0061
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0050

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in hactares / Square metres
1	2	3	4	5	6	7	8
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0004
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0007
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0047
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0044
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0010
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0013
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0043
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0040
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0016
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0019
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0038
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0067
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0047
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0060
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0055
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0045
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0069
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0081
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0033
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0020
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0090
				1413	Pvt.	Non Agri.	0.0145
			(4) Bhachau	1093	Pvt.	Agri.	0.0940
				1095/1	Pvt.	Agri.	0.0770
				1095/2	Pvt.	Agri.	0.0012
				1096	Pvt.	Agri.	0.0937
				1938/1	Pvt.	Non Agri.	0.0475
				1938/2	Pvt.	Non Agri.	0.0826
				1938/3	Pvt.	Non Agri.	0.0110
				1938/4	Pvt.	Non Agri.	0.0949
				1192/1	Pvt.	Agri.	0.0771
				1192/2	Pvt.	Agri.	0.0266
				1190/2	Pvt.	Agri.	0.0658
				1225	Pvt.	Agri.	0.1126
				1190/3	Pvt.	Agri.	0.0230
				1188/2	Pvt.	Agri.	0.0688
				1183/2	Pvt.	Non Agri.	0.0827
				1411/2	Pvt.	Agri.	0.0285
				1430/1	Pvt.	Agri.	0.0184

4744 GT/12-3

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in hectares / Square metres
1	2	3	4	5	6	7	8
				2000 P	Pvt.	Non Agri.	0.0648
				2000 P	Pvt.	Non Agri.	0.1942
				2000 P	Pvt.	Non Agri.	0.0419
				1922/1	Pvt.	Non Agri.	0.0186
				1919/1	Pvt.	Agri.	0.1329
				2000/45	Pvt.	Non Agri.	0.1423
				1919/1/1	Pvt.	Agri.	0.0519
				1904/2	Pvt.	Agri.	0.0064
				1	Pvt.	Agri.	0.2635
				2000/5	Pvt.	Non Agri.	0.0521
				2000/5	Pvt.	Non Agri.	0.0300
				2000/5	Pvt.	Non Agri.	0.0160
				2000/5	Pvt.	Non Agri.	0.0006
				2000/5	Pvt.	Non Agri.	0.0294
				2000/5	Pvt.	Non Agri.	0.0236
				144/1	Pvt.	Agri.	0.1137
				1853/2 A	Pvt.	Agri.	0.0335
				1853/2 B	Pvt.	Agri.	0.0430
				14	Pvt.	Agri.	0.2117
				2/1	Pvt.	Agri.	0.0138
				2/2	Pvt.	Agri.	0.0072
				1852/1	Pvt.	Agri.	0.5133
			(5) Chopdva	281	Pvt.	Non Agri.	0.0861
			(6) Moti Chirai	368/1	Pvt.	Non Agri.	0.0796
				230	Pvt.	Agri.	0.0956
				1003	Pvt.	Agri.	0.1696
				433	Pvt.	Agri.	0.0032
				553	Pvt.	Agri.	0.0235
			(7) Nani Chirai	323/2	Pvt.	Agri.	0.0052
		(2) Anjaar	(1) Versana	46/1	Pvt.	Non Agri.	0.0554
				34/1	Pvt.	Non Agri.	0.2058
				235	Pvt.	Agri.	0.0053
		(3) Gandhidham	(1) Padana	79/2	Pvt.	Non Agri.	0.0300
			(2) Chudva	205/2	Pvt.	Agri.	0.0419
			(3) Mithi Rohar	51/1	Pvt.	Agri.	0.0369
				51/2	Pvt.	Non Agri.	0.0223
				24/3	Pvt.	Non Agri.	0.0476
				24/4	Pvt.	Agri.	0.0372
				566/2	Pvt.	Agri.	0.0387

Serial number	Name of the district	Name of the taluka	Name of the village	Survey number	Type	Nature	Area in hectares / Square metres
1	2	3	4	5	6	7	8
				288/2	Pvt.	Non Agri.	0.1062
				292	Pvt.	Non Agri.	0.1394
				573 Tra.	Govt.	Govt.	0.3083
				288/1	Pvt.	Non Agri.	0.0865
				573	Pvt.	Non Agri.	0.4107
				243/2	Pvt.	Agri.	0.0846
				243/3	Pvt.	Non Agri.	0.1282

[F. No. NHAI/MC-II/Phase-V/Sama-Gandhi/LA/2009-3A]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.